

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 30—जुलाई 6, 2018 (आषाढ़ 9, 1940)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 30—JULY 6, 2018 (ASHADHA 9, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, 31 मई, 2018

सं. ए. 22017/1/2016-पीएमई. — राष्ट्रपति, श्री अनीश आर. (आईआरएलए नं. : 15498) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 28 मई, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, संदर्भ अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ए.के. दास
अवर सचिव

सं. ए. 22017/1/(i)/2016-पीएमई. — राष्ट्रपति, श्री सुश्रुत शर्मा (आईआरएलए नं. : 15458) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 29 मई, 2018 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अटैचमेंट पर संदर्भ अधिकारी नियुक्त करते हैं।

ए.के. दास
अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2018

सं.आरएस/3/4/1/2018/13 कार्मिक.—राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अपर निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को दिनांक 16 जनवरी, 2018 के मध्याह्न पूर्व से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स में लेवल 13 (पूर्व संशोधित वेतनमान 37400-67000 रुपये के वेतन बैंड-4 + 8700 रुपये के ग्रेड वेतन) में और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (पीएसएसएस) के ग्रेड में ' गैर-कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन ' को स्वीकृति प्रदान की है :

1. श्रीमती मंजु अग्रवाल
2. श्री अनिल कुमार
3. श्रीमती मधु राजपुत
4. श्री बदरुद्दीन

2. उपर्युक्त उन्नयन 13 अप्रैल, 2017 के भर्ती और सेवा शर्तों संबंधी आदेश सं. 1/2017 के पैरा 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा के अधीन होंगे ।

राकेश प्रसाद

निदेशक

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

सं.आरएस/3/4/1/2018/30 कार्मिक.— श्री सुरेश कुमार, जिन्हें पहले दिनांक 25 मई, 2016 की अधिसूचना सं. आर एस/3/4/1/2016/33- कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक (पीएसएसएस) ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 14 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया जाता है ।

राकेश प्रसाद

निदेशक

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

सं.आरएस/3/4/1/2018/36-कार्मिक.—श्री पवन कुमार, जिन्हें पहले दिनांक 19 मार्च, 2015 की अधिसूचना सं. आर एस/3/4/1/2015/18- कार्मिक द्वारा स्व-स्थाने आधार पर राज्य सभा सचिवालय में निजी सचिव ग्रेड में नियुक्त किया गया था, को 27 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया जाता है ।

राकेश प्रसाद

निदेशक

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)
(प्रशासनिक प्रभाग)

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

सं. डीपी/कार्मिक-1/2018/2203/03/69/2013.—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति आधार पर पुलिस उपाधीक्षक के तौर पर तैनात श्री कमलजीत सिंह, एस.ए.ओ., एस.एस.बी. की सेवाएं प्रत्यावर्तन पर दिनांक 11.06.2018 के अपराह्न से उनके पैतृक विभाग अर्थात् सशस्त्र सीमा बल को वापस सौंपी जाती हैं।

डी.पी. सिंह
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)
के.अ.ब्यू.(मु.) : नई दिल्ली

गृह मंत्रालय
नई दिल्ली, 21 जून, 2018

सं. आई-14011/5/2018-आईपीएस-1(I).—भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए संघ लोक सेवा आयोग ने दिनांक 18.06.2018 को चयन समिति की दिनांक 26.04.2018 की बैठक में इसके द्वारा बनाई गई 2017 की उस चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय पुलिस सेवा में कुल 2 मौलिक रिक्तियों को भरे जाने हेतु उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल किया गया है :-

चयन सूची-2017

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	अजय सिंह	01.07.1976
2.	पंकज भट्ट	01.12.1975

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

सं. आई-14011/5/2018-आईपीएस-1(II).—राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखण्ड पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड संवर्ग प्रदान करते हैं :-

चयन सूची-2017

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	जन्म तिथि
1.	अजय सिंह	01.07.1976
2.	पंकज भट्ट	01.12.1975

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

3. यह नियुक्तियां अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी।

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

सं. आई-18012/02/2016-आईपीएस-1.-भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए, राष्ट्रपति पश्चिम बंगाल संवर्ग को आबंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व/श्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख क्र
1.	सिब संकर दत्ता	01.03.2005
2.	सत्यजीत बन्धोपाध्याय	28.12.2007
3.	मिलन कान्त दास	28.12.2007
4.	दिलीप कुमार अदक	28.12.2007

अजय कुमार सिंह
अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

सं. 44011/14 (एस)2015-स्था. (ख-II) (भाग-II) श्री अंशुमान दास, सदस्य, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी), के पद का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 25.07.2017 (अपराहन) से ग्रहण किया था। सक्षम प्राधिकारी ने इससे पहले श्री अंशुमान दास को सौंपे गए अध्यक्ष, पीईएसबी के पद के अतिरिक्त प्रभार को दिनांक 31.03.2018 तक अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया था। सक्षम प्राधिकारी ने अब श्री अंशुमान दास, सदस्य, पीईएसबी को सौंपे गए अध्यक्ष, लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) के पद के अतिरिक्त प्रभार को अगले तीन माह तक अर्थात् दिनांक 30.06.2018 अथवा, अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक बढ़ाने का अनुमोदन प्रदान किया है।

एन. श्रीरमन
निदेशक (ई-II)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 18 जून, 2018

फा.सं.ए-12011/1/2018-स्थापना.—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 2 मई, 2018 के आदेश संख्या 36/02/2018-ई.ओ.(एस.एम.-I) के अनुसरण में श्रीमती शेफाली शाह, आई.आर.एस.(आई.टी:85) को, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 (1,82,200/- रुपये से 2,24,100/- रुपये) में, दिनांक 10-05-2018 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में अपर सचिव नियुक्त करते हैं।

धर्मेश मकवाणा
निदेशक

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

फा. सं. ए-12011/6/2016-स्थापना.— राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 06.04.2018 के आदेश संख्या टी-9/2018 के अनुसरण में श्रीमती जयन्ती काला, (आई.ई.एस.: 2010) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700/- से 2,08,700/- रुपये) में, दिनांक 17.05.2018 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धर्मेश मकवाणा
निदेशक

फा. सं. ए-12011/6/2016-स्थापना.—राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 28.3.2018 के आदेश संख्या पी-4/2018 के अनुसरण में श्री सतिन्दर कुमार, (आई.ई.एस.: 2013) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 11 (67,700/- से 2,08,700/- रुपये) में, दिनांक 17.05.2018 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उपभोक्ता मामले विभाग में उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

धर्मेश मकवाणा
निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2018

सं.ए-12017/01/2018-स्थापना.—महामहिम राष्ट्रपति, डा. कैलाश चंद्राकर पेटकर को वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में वैज्ञानिक 'सी' के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के द्वारा उनके चयन के परिणामस्वरूप पे मैट्रिक्स लेवल-11 के, 67,700 - 2,08,700 रु. में 15 जून, 2018 को पूर्वाह्न से पूर्णतया अस्थाई आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं। उनकी नियुक्ति उनके चरित्र और पूर्ववृत्त की जाँच तथा इस विभाग के नियुक्ति प्रस्ताव पत्र संख्या ए-12023/01/2013-स्था. (भाग II) दिनांक 9 अप्रैल 2018 में नियत अन्य शर्तों के अधीन होगी। डॉ. कैलाश चंद्राकर पेटकर की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार की नई पेंशन योजना के अंतर्गत होगी।

कुलदीप कुमार
अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

नंबर 29-01/2017-एन.आर.एम-1.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसरण संचार संख्या 9/17/2017-EO (SM-II) दिनांक 10.04.2018, माननीय राष्ट्रपति के आदेशानुसार श्री बिस्वेस्वर रथ, अतिरिक्त आयुक्त (आर.एफ.एस) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के आधार पर तकीनीकी विशेषज्ञ (जल प्रबंधन) वेतन मैट्रिक्स के स्तर—14 पर 27.04.2018 (अपराह्न) से सेवा निवर्तन (Suerannuation) जो 28-02-2021 अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले नियुक्ति की जाती है।

सौम्या श्रीकांत

अवर सचिव

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 जून, 2018

सं. ईआरबी-1/2018/2/45.—राष्ट्रपति जी, श्री ए.के. श्रीवास्तव आईआरएएस को 13.06.2018 के पूर्वाह्न से एस ए ग्रेड में पदोन्नत होने पर कार्यपालक निदेशक, वित्त (व्यय)-II, रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय

सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

सं. 2016/ई (जीआर) II/7/16.— राष्ट्रपति, सम्मिलित चिकित्सा सेवा परीक्षा, 2010 के आधार पर चयन किए गए निम्नलिखित डॉक्टरों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय रेल चिकित्सा सेवा में सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारियों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	नाम (डॉ)	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	अभिषेक	14.02.2012
2	वाघमारे आनन्द शिवाजी	28.08.2012

आर.के सिन्हा

संयुक्त निदेशक/स्थापना (राजपत्रित)

रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून 2018

फा.सं. एल एच-13013/4/2013-एस एल.—राष्ट्रपति, 03 मई, 2018 (पूर्वाह्न) से श्री अजीत कुमार को वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 (रु.56100-177500) में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में सहायक कार्यकारी अभियन्ता (इलैक्ट्रानिक्स) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जयसीलन टी

निदेशक

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 31st May, 2018

F.No. A.22017/1/2016-PME.—The President is pleased to appoint Shri Aneesh R., (IRLA No. 15498) as Reference Officer in the Prime Minister's Office with effect from the forenoon of 28th May, 2018 until further orders.

A.K. DAS
Under Secretary

F.No. A.22017/1(i)/2016-PME.—The President is pleased to appoint Shri Sushrut Sharma, (IRLA No. 15458) as Reference Officer in the Prime Minister's Office on attachment basis with effect from the forenoon of 29th May, 2018 until further orders.

A.K. DAS
Under Secretary

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 19th February, 2018

No. R.S.3/4/1/2018/130-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to grant 'Non-functional Financial Upgradation' to the following persons, presently in the grade of Additional Director (PSSS), to the grade of Director (PSSS) in Level 13 in the Pay Matrix (corresponding to the pre-revised scale of PB-4 of Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/-) plus usual allowances as admissible under the rules with effect from the forenoon of 16th January, 2018 and until further orders:

1. Smt. Manju Aggarwal
2. Shri Anil Kumar
3. Smt. Madhu Rajput
4. Shri Badruddin

2. The above upgradations shall be governed by the provisions contained in Para 8 of the R&CS Order No. 1/2017 dated 13th April, 2017.

RAKESH PRASAD
Director

New Delhi, the 18th April, 2018

No. R.S. 3/4/1/2018/30-Perl.—Shri Suresh Kumar, who was earlier appointed to the grade of Joint Director (PSSS) in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis, *vide* Notification No. RS/3/4/1/2016/33-Perl. Dated 25th May, 2016, stands adjusted against regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 14th April, 2018.

RAKESH PRASAD
Director

New Delhi, the 2nd May, 2018

No. R.S. 3/4/1/2018/36-Perl.—Shri Pawan Kumar, who was earlier appointed to the grade of Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat on *in situ* basis, *vide* Notification No. RS/3/4/1/2015/18-Perl. Dated 19th March, 2015, stands adjusted against regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 27th April, 2018.

RAKESH PRASAD
Director

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION
(DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT)
(ADMINISTRATION DIVISION)

New Delhi, the 19th June, 2018

No. DP/Pers. 1/2018/2203/3/69/2013.—Services of Shri Kamaljeet Singh, SAO, SSB, posted as DSP in CBI, ACB, New Delhi on deputation basis, are placed back to his parent department i.e Shashatra Seema Bal w.e.f. 11/06/2018 (AN) on repatriation.

D.P. SINGH
Admn. Officer (Pers.)
CBI HO : New Delhi

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 21st June, 2018

No. I-14011/5/2018-IPS.I (I).—In exercise of the provisions contained in sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has on 18.06.2018 approved the Select List of the year 2017 prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26.04.2018, containing the names of the following State Police Service Officers of Uttarakhand towards filling up of 2 substantive vacancies in the Uttarakhand Cadre of Indian Police Service :—

SELECT LIST 2017

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Ajay Singh	01.07.1976
2.	Pankaj Bhatt	01.12.1975

AJAY KUMAR SINGH
Under Secretary

No. I-14011/5/2018-IPS.I (II).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Uttarakhand Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Uttarakhand Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

SELECT LIST 2017

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Ajay Singh	01.07.1976
2.	Pankaj Bhatt	01.12.1975

2. The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

3. The appointments will take effect from the date of issue of this notification.

AJAY KUMAR SINGH
Under Secretary

New Delhi, the 22nd June, 2018

No.I-18012/02/2016-IPS-I.—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Cadre of West Bengal in the Indian Police Service, with effect from the dates indicated against each:—

SN.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI)	DATE OF CONFIRMATION
1.	Sib Sanker Dutta	01.03.2005
2.	Satyajit Bandopadhyay	28.12.2007
3.	Milan Kanta Das	28.12.2007
4.	Dilip Kumar Adak	28.12.2007

AJAY KUMAR SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING

New Delhi, the 12th April, 2018

No.44011/14(s)/2015-Estt.(B-II)(Part-II).—Shri Ansuman Das, Member, Public Enterprises Selection Board (PESB), took over additional charge of the post of Chairman, Public Enterprises Selection Board (PESB), with effect from 25.07.2017 (afternoon). The Competent Authority last conveyed approval for the extension of additional charge of the post of Chairperson, PESB entrusted to Shri Ansuman Das for the period upto 31.03.2018 or until further orders, whichever is earlier. The Competent Authority has now conveyed approval for the extension of additional charge of the post of Chairperson, Public Enterprises Selection Board (PESB) entrusted to Shri Ansuman Das, Member, PESB, for another three months i.e. upto 30.06.2018 or until further orders, whichever is earlier.

N.SRIRAMAN

Director (E-II)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 18th June, 2018

F. No. A-12011/1/2018 Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training order No. 36/02/2018-EO (SM-I) dated 2nd May, 2018, the President is pleased to appoint Ms. Shefali Shah, IRS (IT:85) as Additional Secretary in the Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs Food & Public Distribution in the Level 15 of the Pay Matrix (₹ 1,82,200/- to ₹ 2,24,100/-) with effect from the forenoon of 10.05.2018 and until further orders.

DHARMESH MAKWANA

Director

New Delhi, the 19th June, 2018

F. No. A-12011/6/2016 Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. T-9/2018 dated 06.04.2018, the President is pleased to appoint Smt. Jayanti Kala, (IES: 2010) as Deputy Director in the Department of Consumer Affairs in the Level 11 of Pay Matrix (₹ 67,700/- to ₹ 2,08,700/-) with effect from the forenoon of 17.05.2018 and until further orders.

DHARMESH MAKWANA
Director

File No. A-12011/6/2016 Estt.— In pursuance of Department of Economic Affairs Order No. P-4/2018 dated 28.03.2018, the President is pleased to appoint Shri Satinder Kumar, (IES: 2013) as Deputy Director in the Department of Consumer Affairs in the Level 11 of Pay Matrix (₹ 67,700/- to ₹ 2,08,700/-) with effect from the forenoon of 17.05.2018 and until further orders.

DHARMESH MAKWANA
Director

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi, the 26th June, 2018

No.A-12017/01/2018-Estt.— The President is pleased to appoint Dr. Kailash Chandrakar Petkar to the post of Scientist 'C' in Department of Scientific & Industrial Research in the Pay Matrix Level -11 of Rs. 67,700 – 2,08,700 with effect from the forenoon of 15th June 2018 purely on temporary basis, consequent upon his selection to the post through a Direct Recruitment process. His appointment will be subject to verification of his character and antecedents and other conditions as stipulated in this Department's offer of appointment letter No. A-12023/01/2013-Estt. (Vol.II) dated 9th April 2018. His appointment will be governed under the New Pension Scheme, Government of India.

KULDIP KUMAR
Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

New Delhi, the 2nd May, 2018

No. 29-01/2017-NRM-I.—In pursuance of DoPT's communication No. 9/17/2017-EO (SM-II) dated 10.04.2018, the President is pleased to appoint Sh. Bisweswar Rath, Additional Commissioner (RFS), Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, as Technical Expert (Water Management) in National Rainfed Area Authority, on deputation basis in Level-14 of the Pay-Matrix, w.e.f 27.04.2018 (AN) till the date of his superannuation i.e. 28.2.2021 or until further orders, whichever is earlier.

SOWMYA SRIKANTH
Under Secretary

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 14th June, 2018

No. ERB-I/2018/2/44.—The President is pleased to appoint Shri A.K. Srivastava, IRAS as Executive Director, Finance (Expenditure)-II, Railway Board on promotion to SA Grade with effect from forenoon of 13.06.1018.

RANJANESH SAHAI
Secretary, Railway Board

New Delhi, the 19th June, 2018

No.2016/E(GR)II/7/16.—The President is pleased to appoint the following doctors as Assistant Divisional Medical Officers selected on the basis of Combined Medical Services Examination, 2010, in the Indian Railway Medical Service with effect from the date(s) noted against them:—

S.N.	Name (Dr.)	Date of Joining
1	ABHISHEK	14.02.2012
2	WAGHMARE ANAND SHIVAJI	28.08.2012

R.K. SINHA
Joint Director/Estt.(Gazetted)
Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 20th June, 2018

F. No. LH-13013/4/2013-SL.—The President is pleased to appoint Shri Ajeet Kumar to the post of Assistant Executive Engineers (Electronics) in level 10 (Rs.56100 – 177500) of the Pay Matrix in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from 03.05.2018 (Forenoon)

JAYASEELAN T
Director